

फा.सं. 11/1/2017-गोपनीय-1/2 (खण्ड-II)

कर्मचारी चयन आयोग

आशुलिपिक ग्रेड 'सी' और 'डी' परीक्षा 2017-कौशल परीक्षा के अतिरिक्त परिणाम की घोषण

आशुलिपिक ग्रेड 'सी' और 'डी' परीक्षा, 2017 की कौशल परीक्षा का परिणाम आयोग द्वारा दिनांक 28.11.2018 को घोषित किया गया था, जिसमें 601 अभ्यर्थियों ने आशुलिपिक ग्रेड 'सी' के पद के लिए और 2211 अभ्यर्थियों ने आशुलिपिक ग्रेड 'डी' के पद के लिए अर्हता प्राप्त की थी ।

2. कौशल परीक्षा के मूल्यांकन के बारे में अभ्यर्थियों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे । दिनांक 28.11.2018 को घोषित कौशल परीक्षा के परिणाम की आयोग द्वारा व्यापक जांच की गई और यह देखा गया कि कर्मचारी चयन आयोग (उत्तरी क्षेत्र) में दिनांक 09.09.2018 को आयोजित आशुलिपिक ग्रेड- 'डी'- हिन्दी की कौशल परीक्षा के केवल एक बैच अर्थात् बैच-III का असावधानीपूर्वक गलत मास्टर पैसेज के साथ मूल्यांकन किया गया था ।

3. इसके पश्चात उक्त पाली की कौशल परीक्षा का सही पैसेज के साथ पुनः मूल्यांकन किया गया और उसके आधार पर दिनांक 28.11.2018 के परिणाम राइट-अप में निर्धारित मानदंडों के अनुसार 56 अतिरिक्त अभ्यर्थियों ने कौशल परीक्षा में अर्हता प्राप्त की है । कौशल परीक्षा में अनंतिम रूप से अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

	अजा	अजजा	अपिव	अना	योग	भू.पू.सै.	अ.दि.	द.दि.
त्रुटियों के % के आधार पर कट-ऑफ	10%	10%	10%	7%		10%	10%	10%
उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या	9	34	5	8	56	-	-	-

4. अतः आशुलिपिक ग्रेड 'डी' के पद के लिए कौशल परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की कुल संशोधित संख्या अब 2267 हो गई है ।

5. इन 56 अतिरिक्त अभ्यर्थियों का दिनांक 12.12.2018 और 13.12.2018 को दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। अभ्यर्थी प्रवेश पत्रों के लिए कर्मचारी चयन आयोग (उत्तरी क्षेत्र) की वेबसाइट अर्थात् www.sscnr.net.in को देखें।

अवर सचिव (गोपनीय- ½)

10.12.2018